



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 1979/श्रावण 2, 1901

No. 238]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 1979/SRAVANA 2, 1901

इस भाग में चिह्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 457(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 76 के अन्तर्गत आने वाली पालीथिन फिल्म से पटलित एलुमिनियम पन्नी को, जब उसका आयात भारत में किया जाए—

(1) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के हतने भाग से छूट देती है जो मूल्य के 27-1/2 प्रतिशत से अधिक हैं, और

(2) टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देती है, यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

(क) उसमें अन्तर्विष्ट छूट केवल उन्हीं आयातकर्ताओं को लागू होगी जो महानिर्देशक, तकनीकी विकास द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत

करें कि—

(1) आयातकर्ता के पास औषधियों और औषधियों के विनिर्माण के लिए एक अनुमोदित कार्यक्रम है, और

(2) इस प्रकार आयातित पालीथिन फिल्म से पटलित एलुमिनियम पन्नी का प्रयोग केवल औषधियों और औषधियों के स्टिप पैकिंग के लिए किया जाएगा।

(ख) उसमें प्रयुक्त एलुमिनियम पन्नी की मोटाई 0.02 मि. मि. से 0.04 मि. मि. तक होगी और उसमें 97 प्रतिशत से अधिक एलुमिनियम अन्तर्विष्ट होगा, और

(ग) पालीथिन फिल्म से पटलित एलुमिनियम पन्नी, औषधियों और औषधियों की स्टिप पैकिंग के संबंध में प्रयोग में लाए जाने के लिए ही उपदिष्ट है।

2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 170/प्र. सं. 30/98/79-सी. शु. 1]

के. चन्द्रमौली, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 457(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52

of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts aluminium foil laminated with polyethylene film and falling within Chapter 76 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India from :—

- (i) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 27-1/2 per cent ad-valorem ; and
- (ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

subject to the following conditions, namely :—

- (a) The exemption contained herein shall be applicable only to those importers who produce a certificate

issued by the Director General of Technical Development to the effect that—

- I. the importer has an approved programme for the manufacture of drugs and medicines ; and
 - II. the aluminium foil laminated with polyethylene film thus imported will be used only for strip packing of drugs and medicines.
- (b) The aluminium foil used therein shall be of the thickness of 0.02 mm to 0.04 mm and shall contain more than 97 per cent of aluminium ; and
 - (c) The aluminium foil laminated with polyethylene film is in a form indicative of ready use for strip packing of drugs and medicines.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th September, 1979.

[No. 170/F. No. 355/96/79-Cus.-I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.